

तुरंत रिलीज के लिए

## ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज, पालतू जानवरों के लिए एमरजेंसी फूड पेंटी के द्वारा कम्युनिटी सहायता को बढ़ा रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (14 जनवरी, 2022) – ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज (Brampton Animal Services) ने, पालतू जानवरों संबंधी फूड, कैट लिट्टर और जानवरों के लिए अन्य जरूरी सामान के जरूरतमंद, पालतू जानवरों के मालिकों की सहायता के लिए, पालतू जानवरों के लिए एमरजेंसी फूड पेंटी (Emergency Pet Food Pantry) शुरू की है।

पालतू जानवरों के लिए एमरजेंसी फूड पेंटी का उद्देश्य, मांग और डोनेशन्स के आधार पर, पालतू जानवरों के मालिकों को एक सप्ताह से लेकर एक महीने तक, पालतू जानवरों संबंधी सामान की सहायता देना है। ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज ने इस पहलकदमी को संभव बनाने में मदद के लिए, लोकल PetValu और FreshCo के साथ साझेदारी की है।

कारोबारियों को 905.458.5800 पर फोन करके या [animal.services@brampton.ca](mailto:animal.services@brampton.ca) पर ईमेल करके, पालतू जानवरों के लिए एमरजेंसी फूड पेंटी की सहायता करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

निवासी, 475 क्रिसलर ड्राइव (475 Chrysler Drive) में स्थित ब्रैम्पटन एनिमल शेल्टर (Brampton Animal Shelter) में बिल्लियों, कुत्तों और अन्य छोटे जानवरों के लिए सीलबंद, सूखे या डिब्बाबंद पालतू जानवरों संबंधी फूड डोनेट कर सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं की सूची के लिए, ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज की [एमाजोन विश लिस्ट \(Amazon Wish List\)](#) पर या ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज के [Facebook पृष्ठ \(Facebook page\)](#) पर जाएं।

पालतू जानवरों के जरूरतमंद मालिक एनिमल सर्विसिज के प्रतिनिधि से बात करने के लिए, 905.458.5800 पर फोन करके, [Animal.Services@brampton.ca](mailto:Animal.Services@brampton.ca) पर ईमेल करके या [ऑनलाइन फार्म जमा करके \(submitting a form online\)](#), पालतू जानवरों के लिए एमरजेंसी फूड पेंटी तक पहुंच सकते हैं। ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज वस्तुएं पैक करेगा और पिक-अप निर्देश प्रदान करेगा। पालतू जानवरों के मालिकों से अनुरोध है कि वे अपने पालतू जानवर के बारे में विवरण शामिल करें, जैसे उनके पास किस प्रकार का पालतू जानवर है, उनके पास कितने पालतू जानवर हैं, और उनके पालतू जानवर की उम्र कितनी है, उनके पालतू जानवर को पीसा हुआ या डिब्बाबंद भोजन चाहिए और कोई भी अतिरिक्त सामान, जिसकी जरूरत उन्हें अपने पालतू जानवर की देखभाल में मदद के लिए हो सकती है।

पालतू जानवरों के लिए एमरजेंसी फूड पेंटी के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [www.brampton.ca/animalservices](http://www.brampton.ca/animalservices) पर जाएं।

**हवाले**

“ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज की पालतू जानवरों के लिए एमरजेंसी फूड पेंट्री, ब्रैम्पटन में जरूरतमंद पालतू जानवरों के मालिकों की अपने पालतू जानवर की देखभाल में मदद के लिए जरूरी सामान में सहायता करेगी, खास तौर पर इस मुश्किल समय के दौरान। आइए पालतू जानवरों और परिवारों को इकट्ठा रखें – मैं जरूरतमंद व्यक्तियों को हमारी टीम से संपर्क करने की सलाह देता हूँ।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“पालतू जानवरों के लिए एमरजेंसी फूड पेंट्री, संसाधन साझे करने और ब्रैम्पटन के पालतू जानवरों को खुश और स्वस्थ रखने के लिए, कम्युनिटी को इकट्ठा लाती है। इस पहलकदमी की सफलता, कम्युनिटी की दानशीलता पर निर्भर करती है। जो कारोबारी और निवासी प्रोग्राम में सहायता कर सकते हैं, उन्हें पालतू जानवरों संबंधी जरूरी सामान डोनेट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।”

- जेफ बोमैन (Jeff Bowman), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, लेजिस्लेटिव सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारे डोनर्स और साझेदारों का धन्यवाद, जो पालतू जानवरों के लिए एमरजेंसी फूड पेंट्री को संभव बनाने में मदद करते हैं। यह पहलकदमी, इस कष्टकर समय में हमारी संपूर्ण कम्युनिटी को स्वस्थ और सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आपको अपने पालतू जानवरों के लिए सहायता की जरूरत है, तो कृपया संपर्क करें।”

- डग विलैन्स (Doug Whillans), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6; वाइस-चेयर, लेजिस्लेटिव सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज, हमारे शानदार शहर में सभी जानवरों के लिए देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पालतू जानवरों के लिए एमरजेंसी फूड पेंट्री, पालतू जानवरों के कई मालिकों को उनके पालतू जानवरों के लिए सहायता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि उनके पालतू जानवर खुश और स्वस्थ हैं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

#### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)